



APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India

T +91 11 4320 6650

E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2022-23/269

August 04, 2022

To
The Manager,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 506166

Subject: Submission of Newspaper Cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Saturday, August 13, 2022.

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Saturday, August 13, 2022 as published in Financial Express and Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For APIS India Limited

Amit Anand

Amit Anand
(Managing Director)
Investor Email: mail@apisindia.com



Encl: a/a

N. K. Industries Limited

Registered Office: 7th Floor, Popular House, Ashram Road Ahmedabad - 380 009.
Work: 745, Kadi-Thor road, Kadi - 382 715 Dist.: Mehsana (North Gujarat)
E-mail: nki@nkproteins.com, Web: www.nkindustriesltd.com
CIN: L91106J1987PLC009905, Ph: +91-79-6630 9999

Extracts of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2022

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter ended 30/06/2022	Quarter ended 30/06/2021	Year ended 31/03/2022	Quarter ended 30/06/2022	Quarter ended 30/06/2021	Year ended 31/03/2022
	(Rs. In Lacs)					
Total income from operations (net)	60.00	60.00	240.00	391.87	522.45	2033.26
Net Profit/(Loss) before Extraordinary activities after tax	(57.44)	(39.89)	(186.35)	(84.98)	(67.40)	(152.56)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(57.44)	(39.89)	(186.35)	(84.98)	(67.40)	(152.56)
Equity Share Capital	600.99	600.99	600.99	600.99	600.99	600.99
Earnings Per Share (before extraordinary items) of Rs.10/- each Basic:	(0.96)	(0.66)	(3.10)	(1.41)	(1.21)	(2.54)
Diluted:	(0.96)	(0.66)	(3.10)	(1.41)	(1.21)	(2.54)

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites.
(URL: <http://www.bseindia.com/corporates/ann.aspx?script=519494&dur=A&expandable=0>)

For and on behalf of Board of Directors
N. K. Industries Limited
Sd/-
Mr. Hasmukhbhai K Patel
Whole Time Director

Date: 2nd August, 2022
Place: Ahmedabad

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawaninandi - 326 502 (Rajasthan)
CIN: L17124RJ2005PLC020927 Tel: (07433)222052/82
Email: sti_investor_grievance@sutlejtextiles.com Website: www.sutlejtextiles.com

NOTICE OF THE SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting ('AGM') of Sutlej Textiles and Industries Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 30th August, 2022 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020; General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020; General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08th December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by SEBI and other applicable circulars issued by MCA / SEBI. Members participating through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with above circulars, the Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to the Members electronically to the email IDs registered by them with the Depository Participants / the Company.

The Notice of 17th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website www.sutlejtextiles.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

1. **Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-Voting for the resolutions set out in AGM notice:**

- In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to rt.helpdesk@linkintime.co.in
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAR (self-attested copy) to rt.helpdesk@linkintime.co.in
- Alternatively Members may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be.

2. **Manner of casting vote through e-Voting:**

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-Voting facility at the AGM.
- In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09th December, 2020, e-Voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat accounts / websites of NSDL and / or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s).
- Instructions on the process of remote e-Voting and e-Voting at the AGM is provided as part of the Notice of the 17th AGM.
- Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-Voting will be able to vote electronically at the AGM.
- Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of AGM at <https://www.evoting.nsdl.com>. The detailed procedure for attending the AGM through VC / OAVM is explained in the Notice of the AGM.

3. **Dividend:**

- Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed Monday, 29th August, 2022 as the Record Date for the purpose of determining eligibility for the payment of dividend.
- The Board of Directors have at their meeting held on 09th May, 2022 recommended dividend at the rate of Rs. 1.85 per equity share having nominal value of Re. 1/- each for the financial year ended 31st March, 2022. The dividend, as recommended, if approved at the AGM, will be paid to eligible Members on or after 04th September, 2022.
- Payment of Dividend will be made electronically to the Members who have registered their bank account details with the Company. Dividend warrants will be dispatched through post to the registered address of the Members who have not registered their bank accounts details.

4. **Manner of registering mandate of receiving dividend electronically (ECS facility):**

- Members holding shares in dematerialized mode are requested to avail Electronic Clearing Service (ECS facility) / update their bank details by contacting their Depository Participant.
- Members holding shares in physical form are requested to download the ECS mandate form from the website of the Company and send the duly filled up form, along with a photo copy of a cancelled cheque, to the Company's RTA viz. Link Intime India Private Limited.
- Members are also informed that in terms of provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 01st April, 2020 will be taxable in the hands of the Members. Communication in this regard forms part of the AGM notice which will be also available on the Company's website www.sutlejtextiles.com.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or through e-Voting facility at the AGM.

Place : Mumbai
Date : 02nd August , 2022

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
Manoj Contractor
Company Secretary and Compliance Officer

CAPTAIN POLYPLAST LTD.

e-mail : info@captainpolyplast.in
web : www.captainpolyplast.com
CIN No. : L25209GJ1997PLC031985

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 of the SEBI LODR Regulations 2015, the meeting of board of directors of the company will be held on Saturday, 13TH AUGUST, 2022 interalia,

- To consider and approve the standalone & consolidated unaudited financial results for the quarter ended on 30th June, 2022.

The said notice can be accessed on the website of the company at www.captainpolyplast.com and may also be accessed on the stock exchange website at www.bseindia.com.

Place : Rajkot
Date : 02/08/2022

For, Captain Polyplast Ltd
sd/
Khyati Mehta
(Company Secretary)

APIS INDIA LIMITED

CIN: L51900DL1983PLC164048
Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008
Tel: 011-43206550 | Fax: 011-25173631
E-mail: apis@apisindia.com
Website: www.apisindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 13th day of August, 2022, at the Registered Office of the Company at 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008, inter alia to transact the following business:

- To consider, approve and take on record the unaudited financial results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter ended June 30, 2022.
- Any other business with the permission of chair.

Further for the purpose of above and in terms of Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the intimation regarding the closure of trading window (i.e. from Friday, July 01, 2022 till Forty Eight (48) hours post the date of Board Meeting) for dealing in the securities of the Company has already been submitted to the Stock Exchange.

The said notice is also available on the website of the company at www.apisindia.com and on the website of the Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com.

For APIS India Limited
Amit Anand
(Managing Director)
DIN: 00951321

Date: August 02, 2022
Place: New Delhi

Saregama India Limited

Registered Office : 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028
web : www.saregama.com, E-mail id : co.sec@saregama.com, Phone No. : 033-2551-2984, CIN : L22213WB1946PLC014346

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30 June, 2022

Sr No	Particulars	(Rs in Lakhs except as otherwise stated)					
		Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended 30 June, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30 June, 2021 (Unaudited)	Year Ended 31 March, 2022 (Audited)	Quarter Ended 30 June, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30 June, 2021 (Unaudited)	Year Ended 31 March, 2022 (Audited)
1.	Total Income from Operations	15,764	10,505	60,172	17,915	10,776	61,554
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,588	3,709	20,199	5,577	3,679	20,441
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,588	3,709	20,199	5,577	3,679	20,441
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,161	2,763	15,042	4,143	2,733	15,265
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	3,168	6,019	18,257	3,133	6,564	19,108
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,743	1,928	1,928	1,743	1,928
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,24,168			1,24,754
8.	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (Not annualised except for year ended 31 March, 2022) (Refer Note 2)						
	Basic (Rs.)	2.16	1.60	8.31	2.15	1.57	8.43
	Diluted (Rs.)	2.16	1.59	8.30	2.15	1.56	8.42

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended on 30 June, 2022 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results for the quarter ended on 30 June, 2022 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.saregama.com).
- Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.
- The above unaudited standalone/consolidated financial results for the quarter ended 30 June, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 02 August, 2022 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "limited review" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unmodified review report on the unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30 June, 2022.

On behalf of the Board
Vikram Mehra
Managing Director
DIN: 03556880
www.strategiesadvertising.com

Place : Mumbai
Date : 02 August, 2022

GLAND PHARMA LIMITED

Regd. Office: Survey No. 143-14B, 150 & 151, Near Gandimaisamma 'X' Roads, D.P. Pally, Dundigal, Dundigal-Gandimaisamma Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad - 500 043, Telangana. CIN: L24239TG1978PLC002276
Tel: +91 84556 99999, email: investors@glanpharma.com
Website: www.glanpharma.com

NOTICE FOR ATTENTION OF THE MEMBERS OF GLAND PHARMA LIMITED

In order to send the notices of General Meetings, Annual Report and other statutory communications to the shareholders in electronic form, we request the shareholders of the Company who have not yet registered/updated their e-mail address, to register/update the e-mail in the manner as mentioned below:

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their e-mail address with the Company are requested to register/update with Link Intime India Private Limited, Company's Registrar and Transfer Agent, by sending an e-mail at rt.helpdesk@linkintime.co.in or by sending an e-mail to the Company at investors@glanpharma.com along with Folio No. and valid e-mail address.
- Members holding shares in Dematerialized mode are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant with whom the demat account(s) is maintained.

For Gland Pharma Limited
Sd/-
Sampath Kumar Palleramudi
Company Secretary

Place: Hyderabad
Date: 02-08-2022

SIL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawaninandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082;
Email: investor.grievances@silinvestments.in ; Website : www.silinvestments.in CIN : L17301RJ1934PLC002761

NOTICE OF THE EIGHTY EIGHT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE

Notice is hereby given that the Eighty Eight Annual General Meeting ('AGM') of SIL Investments Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 30th August, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020; General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020; General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08th December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by SEBI and other applicable circulars issued by MCA / SEBI. Members participating through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with above circulars, the Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to the Members electronically to the email IDs registered by them with the Depository Participants / the Company.

The Notice of 88th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website www.silinvestments.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

1. **Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-Voting for the resolutions set out in AGM notice:**

- In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to rt.helpdesk@linkintime.co.in
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAR (self-attested copy) to rt.helpdesk@linkintime.co.in
- Alternatively Members may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be.

2. **Manner of casting vote through e-Voting:**

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-Voting facility at the AGM.
- In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09th December, 2020, e-Voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat accounts / websites of NSDL and / or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s).
- Instructions on the process of remote e-Voting and e-Voting at the AGM is provided as part of the Notice of the 88th AGM.
- Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-Voting will be able to vote electronically at the AGM.
- Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of AGM at <https://www.evoting.nsdl.com>. The detailed procedure for attending the AGM through VC / OAVM is explained in the Notice of the AGM.

3. **Dividend:**

- Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed Friday, 26th August, 2022 as the Record Date for the purpose of determining eligibility for the payment of dividend.
- The Board of Directors have at their meeting held on 13th May, 2022 recommended dividend at the rate of Rs. 2.50 per equity share having nominal value of Rs. 10/- each for the financial year ended 31st March, 2022. The dividend, as recommended, if approved at the AGM, will be paid to eligible Members on or after 04th September, 2022.
- Payment of Dividend will be made electronically to the Members who have registered their bank account details with the Company. Dividend warrants will be dispatched through post to the registered address of the Members who have not registered their bank accounts details.

4. **Manner of registering mandate of receiving dividend electronically (ECS facility):**

- Members holding shares in dematerialized mode are requested to avail Electronic Clearing Service (ECS facility) / update their bank details by contacting their Depository Participant.
- Members holding shares in physical form are requested to download the ECS mandate form from the website of the Company and send the duly filled up form, along with a photo copy of a cancelled cheque, to the Company's RTA viz. Link Intime India Private Limited.
- Members are also informed that in terms of provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 01st April, 2020 will be taxable in the hands of the Members. Communication in this regard forms part of the AGM notice which will be also available on the Company's website www.silinvestments.in.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or through e-Voting facility at the AGM.

For SIL Investments Limited
Lokesh Gandhi
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 02nd August, 2022

indianexpress.com

I arrive at a conclusion not an assumption.

Inform your opinion with detailed analysis.

The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

The Indian Express
—JOURNALISM OF COURAGE—

ALBERT DAVID LIMITED

CIN : L51109WB1938PLC009490

Regd. Office : 'D' Block, 3rd Floor, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001
Tel : (033) 2262-8436/8456/8492, 2230-2330, Fax : (033) 2262-8439
Email : adavid@gdataone.in, Website : www.albertdavidindia.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 09, 2022, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the first quarter ended on June 30, 2022 along with the Limited Review Report thereon.

This said Notice may be accessed on the Company's website at www.albertdavidindia.com and may also be accessed on Stock Exchanges' website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Albert David Limited
Sd/-
Chirag A. Vora
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : August 02, 2022

“FORM A”
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF EURLIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	DETAILS
1. Name of corporate debtor	EURLIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	09 th April 1987
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC - MUMBAI
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51900MH1987PTC043106
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd. Office: Plot 21, Flat 105, Sector - 16, Kopardevi, 400709, New Mumbai, Thane MH 400709 IN
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	20 th July 2022 (As per order of Hon. NCLT, Mumbai dated 20 th July 2022 in C.R. No.932/IBC/MB/2021 (Order received on 01 st August 2022))
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	16 th January 2023
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Vishal Ghisulal Jain IBBI/IPA-001/IP-P00419/2017-18/10742
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	CA, Vishal Ghisulal Jain D-1902, Palm Beach Residency, Amey CHS Ltd., Plot No.24-29, Sector-4, Nerul West, New Mumbai-400706 E-Mail: vishal@cvvishal Jain.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	CA, Vishal Ghisulal Jain c/o Resolve-IFE Private Limited, 1003, Satra Plaza, Sector 19-D, Palm Beach Road, Vashi, New Mumbai-400703 E-Mail: vishal@resolvegroup.co.in
11. Last date for submission of claims	15 th August 2022
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NOT APPLICABLE
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NOT APPLICABLE
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web Link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: As in (10) above Please refer Note 1 for applicable form

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process for Eurlife Healthcare Private Limited on 20th July 2022. (Order received on 01st August 2022). The creditors of Eurlife Healthcare Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 15th August 2022, to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10, 11. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Note 1: The submission of claim to be made in accordance with Chapter 4 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with proofs to be submitted in the following specified forms along with documentary proof in support of the claims:
FORM A: Claim by operational creditors except workmen and employees
FORM C: Claim by financial creditors
FORM D: Claim by a workman or an employee
FORM E: Claim submitted by an authorized representative of workman or employees
FORM F: Claim by creditors other than financial creditors and operational creditors
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

CA, Vishal Ghisulal Jain
Insolvency Professional
IBBI Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00419/2017-18/10742
IBBI Regd. Address: D-1902, Palm Beach Residency, Amey CHS Ltd., Plot No.24-29, Sector-4, Nerul West, New Mumbai-400706
IBBI Regd. E-mail: vishal@cvvishal Jain.com

AFA valid upto: 04-Jan-2023
Insolvency Professional Entity: Resolve-IFE Private Limited
IBBI Registration No: IBBI/PE/0120
Communications Address: 1003, 10th Floor, Satra Plaza, Sector 19D, Palm Beach Road, Vashi, New Mumbai - 400 703.
Communications Email: eurulife@resolvegroup.co.in

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में अपना आदेश वापस लिया

देहरादून, 2 अगस्त (भाषा)।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में पिछले वर्ष 17 नवंबर को दिए गए अपने एक आदेश को वापस (रिक्त) ले लिया है। अवमानना का यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिंहा रेड्डी से जुड़ा है और भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से (वापसी की) अर्जी दाखिल किए जाने के बाद अखिलत ने यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की ओर से 29 जुलाई को पारित आदेश में कहा गया था, 'रिक्त अर्जी के समर्थन में दाखिल किए गए हलफनामे में जो कारण बताए गए हैं, उन्हें देखते हुए 17.11.2021 के आदेश को वापस लिया जाता है।' अखिलत ने

कहा, 'वापसी के आवेदन को खींचकर लिया जाता है।' यह मामला 20 फरवरी, 2019 का है जब न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकल पीठ ने सीएटी के तत्कालीन अध्यक्ष रेड्डी को दीवानी अवमानना नोटिस जारी किया था। चतुर्वेदी ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के 19.6.2017 और 21.8.2018 के आदेश की 'जानबूझ कर आज्ञा नहीं मानने' पर अवमानना याचिका दाखिल की थी।

सार्वजनिक सूचना

केंद्रीय सरकार के सम्म, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा एलएबी के पंजीकृत कार्यालय के एक संघ से अन्य संघ में परिवर्तन के लिए विज्ञापन सीमित देता नागौरा अभिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा 3 (अ) और सीमित देता नागौरा नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में और

बडबिज एडवाइज़र्स एलएबी

(एलएबीआईएन-एलएबी-4856) निरसका पंजीकृत पता: प्लॉट नं. आर-3/42, कोरफ नं.-203 ग्राम सभा, नवादा, दिल्ली-110059

आवेदन/याचिकाकर्ता एलएबी संस्थाकरण को सूचित किया जाता है कि "बडबिज एडवाइज़र्स एलएबी" ने सीमित देता नागौरा अभिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक चार्जिक का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "पब्लिक एजेंसी टैक्स सेवा" के "हरियाणा राज्य" में बदलने की अनुमति मानी गई है।

एलएबी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निरसका संचालन प्रकृत फाइल कर एप्लीकेशन-21 फॉर्म (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक संघ से चिपके उसके हित का प्रसार और उसके विशेष कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आवृत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा, कौमी नित्य, बाइफेल्ड रोड, 81, मेरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदन एलएबी कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजे।

प्लॉट नं.-आर-3/42, कोरफ नं.-203 ग्राम सभा, नवादा, दिल्ली-110059

आवेदन के लिए और सूची की ओर से बडबिज एडवाइज़र्स एलएबी

हस्ता/— या न्याय कृपा (नियुक्त सहायक) रजि. सं. 05319842

दिनांक: 02 अगस्त 2022

स्थान: दिल्ली

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

दिनांक: 02 अगस्त, 2022

स्थान: नई दिल्ली

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

कृते एपिस इंडिया लिमिटेड (प्रबंध संचालक) डीन: 00951321

This is only an Advance Memorandum for the information purpose and not for an offer document and also not for a prospectus. It is not for publication, circulation, or release, directly or indirectly, in the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated Wednesday, June 29, 2022 ("Letter of Offer") filed with BSE Limited, the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed (BSE) and Securities Exchange Board of India (SEBI).



BANAS FINANCE LIMITED

Our Company was incorporated on June 06, 1983, as a public limited company, in the name and style "Pranesh Leasing Company Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra, India. Further, the name of our Company was changed from "Pranesh Leasing Company Limited" to "Banash Finance Limited" and a Certificate of Incorporation consequent upon the change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, India on August 28, 1996. For details regarding changes in the name and registered office of our Company, please refer to the section titled "General Information" on page 38 of the Letter of Offer.

Corporate Identification Number: U6910MH1983PLC030142.
Registered Office: E-109, Crystal Plaza, New Link Road, Andher (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India.
Contact Number: +91-9152096140/41. Contact Person: Pooja Patil, Company Secretary & Compliance Officer.
Email Address: banashn@gmail.com. Website: www.banashn.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE GIRRAJ KISHOR AGRAWAL, TANU GIRRAJ AGRAWAL, HANDUL INVESTRADE PRIVATE LIMITED AND AGRAWAL BULLION LIMITED (FORMERLY KNOWN AS KAVAGURU HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED).

RIGHTS ISSUE OF 2,66,27,811 TWO CRORES FORTY-SIX LAKHS TWENTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED AND EIGHTY-ONE FULLY PAID-UP RIGHTS SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹26.00 (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHT SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹16.00 (RUPEES SIXTEEN ONLY) PER RIGHT SHARE) ("ISSUE PRICE") ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT OF ₹49,94,58,8 LAKHS (RUPEES FORTY-NINE CRORES TWENTY-FOUR LAKHS FIFTY-FIVE THOUSAND AND SIXTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BANAS FINANCE LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") IN THE RATIO OF 24 (TWENTY-FOUR) RIGHTS SHARES FOR EVERY 25 (TWENTY-FIVE) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, JUNE 24, 2022 ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS TWO (2) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 137 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Banash Finance Limited, wishes to thank all the main shareholders for their response to the issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, July 05, 2022, and closed on Tuesday, July 19, 2022, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Thursday, July 14, 2022.

The details of Applications received, is scheduled as under:

Particulars	ASBA Applications				Refunds						Total Particulars of Rejection (B)	Net Valid Applications (C)	
	Total Applications received	Application Banked but not in bid data file	Duplicate entries/Not banked	Shares Difference	Valid ASBA applications (A)	Multiple Application	Not an Eligible Equity Shareholder of the Company	Application Through Third Party Bank Account	Invalid Application	Demat Account Closed			Application with invalid D/P ID / CLIENT ID
Number of Applications received	1,988	—	36	—	1,953	6	249	1	6	3	90	365	1,588
Number of Rights Shares applied for	2,66,27,539	—	8,461	—	2,66,29,078	13,059	41,80,094	50	422	1,060	36,891	42,31,576	2,23,97,502
Total Amount received for the said application	₹3,27,50,780,000/-	—	₹1,99,220,000/-	—	₹3,25,51,560,000/-	₹2,61,180,000/-	₹3,26,01,880,000/-	₹1,000,000/-	₹8,400,000/-	₹21,200,000/-	₹7,37,820,000/-	₹46,31,520,000/-	₹44,79,50,040,000/-
#The total number of valid applications aggregated to 108.75% (One Hundred and Eight Point One Five Percent) of total number of Rights Share allotted under the issue whereas the total number of net subscriptions is 90.95% (Ninety point Nine Five Percent)													
In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Tuesday, July 26, 2022, in consultation with the Issuer Company, Lead Manager, the Registrar, and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on Wednesday, July 27, 2022, allotted 2,23,97,502 (Two Crores Twenty-Three Lakhs Ninety-Seven Thousand and Two) fully paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.													
Basis of Allotment													

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide e-mail has been completed on Monday, August 01, 2022. The intimation to investors Bank Limited (Bankers to the Issue) to SCSEs for the unblocking and in case of ASBA Applications were given on Wednesday, July 27, 2022. The usage application with BSE Limited was filed on Wednesday, July 27, 2022. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on Monday, August 01, 2022. Pursuant to the listing and trading approvals given by BSE Limited, the Rights Shares Allotted in the issue are to commence trading on BSE Limited on Wednesday, August 03, 2022. In accordance with the SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/CL/CIR/P2020/113 dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on Monday, August 01, 2022.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON BSE LIMITED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer in its full text of the "Disclaimer Clause of BSE Limited" on the page 137 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE: CAPITALSQUARE Teaming together to create value

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED
206-209, 2nd Floor, AARPEE Centre, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India.
Contact Details: +91-22-66840989/145/138.
Website: www.capitalsquare.in

PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Borcha Marg, Lower Panel East, Mumbai-400011, Maharashtra, India.
Contact Details: +91-22-2201 2518 / 6761.
Website: www.purvashare.com

BANAS FINANCE LIMITED
E-109, Crystal Plaza, New Link Road, Andher (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India.
Contact Details: +91-9152096140
Website: www.banashn.com
Email: banashn@gmail.com

SEBI Registration Number: INR00001112.
Validity: Permanent

Investor may contact the Registrar to issue/Compliance Officer in case of any Pre-issue/Post-issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with the copy of SCSEs giving full details such as name, address of the Applicant contact details, email address of the depository holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and Designated Branch of the SCSEs where Application Form or the application paper applications as the case may be, is submitted by the investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Date: Tuesday, August 02, 2022
Place: Mumbai

The Letter of Offer is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Registrar at www.p.jvashas.com, and Lead Manager www.capitalsquare.in. Investor should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factor" beginning on page 22 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or otherwise disposed of, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. person (as defined in regulation D) in connection with this offering. U.S. persons (including a person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(k)(1)(VII)(B) or Rule 902(k)(2)(i)), except pursuant to the exemption from, or in connection with, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Shares were offered and sold (i) in connection with the offering outside the United States to the non-U.S. person in compliance with the Regulation S to the Existing Shareholder located in the jurisdiction in which such offer and the sale of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to U.S. persons and also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the US Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

For: Banash Finance Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Girraj Kishor Agrawal
Executive Director
Director Identification Number: 00290958

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank ... the name you can BANK upon!

विस्ती आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से बैंक (ओ) गारंटर (ओ) उपर लेने वाले और प्रत्यक्ष-यता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास निर्यात/प्रयोजित है, का बिक्रय/सांकेतिक कच्चा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, बैंक द्वारा लिया गया है, जो 'प्रायतः है, वैसा ही और जो कुछ भी है' के आधार पर बैंक नीचे उल्लिखित कच्चा बैंक (ओ) गारंटर (ओ) की बचका राशि की समुचित हेतु देवी जायेगी। अधिक संर्भित का दिवस मूल्य एवं अवेरट नवी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञान प्रसार का संर्भित विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणी/गारंटर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	दिनांक नोटिस सफरकी 13(2) के अनुसार	रिजर्व मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदार का ज्ञान प्रसार का विवरण
-------------	-------------	-------------------------	--	------------------------------------	--------------	--------------------------	--

सफरकी एकट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) एवं नियम (9) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जाये।

1. शाखा: शांति कुंज, हरिद्वार
ऋणी: 1. मेसर्स लक्ष्मी अम् वरुण एंड सत्यानर्थ प्रो. लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्र श्री सतेज कुमार, 530, उत्तर सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001,
2. श्री लक्ष्मी पुत्र सतेज कुमार, पता: 1-488, मुजफ्फरनगर, तहसील-खनौली, जिला- मुजफ्फरनगर-251201, उत्तर प्रदेश। पता: 2- शुभम विहार, निकट मुसकुल कॉम्प्लेक्स विद्यालय, हरिद्वार। 3. श्री ब्रज नंदन पुत्र सुरज नारन, मकान नं 530, उत्तर सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर- 251001, उत्तर प्रदेश।

इस नोटिस को नियम 8(6) और नियम (9) सुखा हिल (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत 15 दिनों के वैधानिक नोटिस के रूप में भी माना जाता है।

2. शाखा: राजपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
ऋणी: 1. मेसर्स लक्ष्मी अम् वरुण एंड सत्यानर्थ प्रो. लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्र श्री सतेज कुमार, 530, उत्तर सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001,
2. श्री लक्ष्मी पुत्र सतेज कुमार, पता: 1-488, मुजफ्फरनगर, तहसील-खनौली, जिला- मुजफ्फरनगर-251201, उत्तर प्रदेश। पता: 2- शुभम विहार, निकट मुसकुल कॉम्प्लेक्स विद्यालय, हरिद्वार। 3. श्री ब्रज नंदन पुत्र सुरज नारन, मकान नं 530, उत्तर सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर- 251001, उत्तर प्रदेश।

3. शाखा: सिद्ध कुंज, हरिद्वार
ऋणी: मेसर्स सरदा इम्प्लोयर्स प्रोवाइडर लिमिटेड, 36, कावला कॉम्प्लेक्स ए-215, बड़फुल विकस मार्ग दिल्ली, श्री कपिल शर्मा (निदेशक) लेन नं 10, अपर नवम्बर, मसूरी बाईपास देहरादून, श्रीमती सत्यवती प्लो पर सिंह स्वामी, द्वितीय फी-172 मेरु नगर, गणिकाबाद घुडी, श्री परम स्वामी, द्वितीय फी-172 मेरु नगर, गणिकाबाद घुडी, श्री मोहित बाबुराम (निदेशक) सी-6, ज्योति विहार, शांती कॉम्प्लेक्स हरिद्वार रोड देहरादून उत्तराखण्ड, श्री सुनील कुमार, ग्राम फरुख नगर परगना लोनी तहसील एवं जिला गणिकाबाद

4. शाखा: बी.टी. गंज, रुड़की, हरिद्वार
ऋणी: 1. मेसर्स विद्या इंटरनेशनल श्री सदीप मिश्रा (प्रोवाइडर) पता: 32-बीक बाजार रुड़की-247667, हरिद्वार, पता: 2- बी-19 इंडस्ट्रियल एस्टेट राम नगर, रुड़की-2417667 हरिद्वार, 3. मेसर्स विद्या इंटरनेशनल श्री सदीप मिश्रा (प्रोवाइडर) सी-5, मेरु-7, नोएडा-201301, 4. श्री सदीप मिश्रा पुत्र श्री सदीप मिश्रा 32-बीक बाजार रुड़की-247667, हरिद्वार, 4. श्री विनोद मिश्रा 32-बीक बाजार रुड़की-247667, हरिद्वार, 5. श्री लोचन मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा 32-बीक बाजार रुड़की-247667, हरिद्वार, 6. श्रीमती सवि मिश्रा पानी सदीप मिश्रा 32-बीक बाजार रुड़की-247667, हरिद्वार, 7. मेसर्स विद्या इंटरनेशनल अर्द्ध विक्रम (पार्ट 1) श्री सदीप मिश्रा, 2. श्रीमती सवि मिश्रा, बी-19, इंडस्ट्रियल एस्टेट राम नगर, रुड़की-247667 हरिद्वार, 8. मेसर्स विद्या इंद्रोटेक बायोटेक (पार्ट 2) श्रीमती सवि मिश्रा, 32-बीक बाजार, रुड़की-247667, हरिद्वार

नियम व शर्तें: 1. बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। 2. नीलामी की सम्पत्तियों को जहाँ है, वैसा ही, जो है के आधार पर बिक्री की जायेगी। 3. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेही नहीं लेगी। 4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्रोचरमा पर उपलब्ध वेबसाइट: www.mstcecommerce.com, 5. विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साइट www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, <https://eprocure.gov.in/publish/app> पर लॉगिन कर सकते हैं या नियम व शर्तों की प्रतिनिधि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिन पर प्राप्त कर सकते हैं।

सफरकी एकट 2002 के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

स्थान- हरिद्वार

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

दिनांक- 02.08.2022

स्थान- हरिद्वार

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

दिनांक- 02.08.2022

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Regd. Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020.
Tel. No.: 011-47351111 Fax: 011-2622 9671
Website: www.tigerlogistics.in, Email ID: cvshdha@tigerlogistics.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING

In accordance with Regulation 47 read with regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors (BOB) is to be held on 10th August, 2022 at the registered office of the company for the consideration of the following agenda:

- To consider and approve the draft Director's Report.
- To consider and approve the notice of AGM.
- To consider and fix the date, time and mode for forthcoming Annual General Meeting and other incidental and ancillary objects thereof.
- To consider the Appointment of Statutory Auditor for the purpose of E-Voting.
- To appoint the Agency/Broker for Offer Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (OAVM) to shareholders for AGM purpose.
- To consider and approve the appointment of Internal Auditor.
- To consider and approve the appointment of Secretarial Auditor.
- To consider and approve other matters as stated in agenda of the board meeting.

The notice is also available on the website of the Company www.tigerlogistics.in and website of the Stock Exchange www.bseindia.com.

For Tiger Logistics (India) Limited
Sd/-
Harpreet Singh Malhotra
Managing Director

Date: 02.08.2022
Place: New Delhi

SBBI

प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रण सूचना (आरएफपी)

आरएफपी संख्या: SBBI/DT & e-Comm/DB/2022-23/001 दिनांक: 01.08.2022
भारतीय स्टेट बैंक के 'ऑन-लीन-टू-इ-ग्रेडिजेंट बैंक' के लिए सलाहकार की भूति के लिए पात्र कर्मियों/आफिस से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा व्यापार, परिवहन प्रबंधन और तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए बोलिया आमंत्रित की जाती है। विवरण के लिए, कृपया <https://www.sbi.co.in> पर 'प्रोचरमाट न्यूज' एवं 'प्रोचरमाट एजेंडी पोर्टल' <https://tender.sbi/SBI/> पर जाएं।

आरएफपी काउन्सेलिंग करने की तिथि: 02.08.2022 से 08.08.2022 तक
बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 21.08.2022 को 15.30 बजे तक
डिजिटल दस्तावेज़ और ई-कॉन्सर्स विभाग

The Karnataka Bank Ltd.

प्रधान कार्यालय, मंगलुरु- 575002 | सीआरएफए, L85110KA1924PLC001128
संर्भित पात्रों प्रबंधन शाखा-बी, प्रथम मंज, गॉर्डन रोड, मूल रोड, नई दिल्ली-110060
फोन/फैक्स: 011-40